



रामाज्ञा स्कूल नोएडा
VI / सिल्वर ज़ोन / 2018-19
हिंदी ओलंपियाड अभ्यास-पत्रक

संकल्पना

सही विकल्प पर सही (✓) का चिह्न लगाइए -

प्रश्न 1. संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाएँ हैं -

(क) 11 (ख) 22

(ग) 24 (घ) 12

प्रश्न 2. 'र' के प्रयोग वाले सही शब्द का चयन कीजिए -

(क) सूर्य (ख) सुग्र

(ग) सूत्र (घ) सूय

प्रश्न 3. दिए गए शब्दों में से संयुक्ताक्षर शब्द है -

(क) न्याय (ख) पक्का

(ग) सच्चा (घ) परीक्षा

प्रश्न 4 सही शब्द का चयन कीजिए ।

(क) सामासीक (ख) समाजिक

(ग) सामाजिक (घ) सामजिक

प्रश्न 5. कोयल का पुल्लिंग होगा -

(क) कोयला (ख) कोयली

(ग) नर कोयल (घ) इनमें से कोई नहीं

अनुप्रयोग

उचित विकल्प का चयन कीजिए ।

प्रश्न 6. दिए गए शब्दों में से निरर्थक शब्द है -

(क) वाना (ख) वायु

(ग) चाबी (घ) वाणी

प्रश्न 7. । 'मनुष्यता' का संज्ञा-भेद है -

(क) जातिवाचक (ख) भाववाचक

(ग) व्यक्तिवाचक (घ) द्रव्यवाचक

प्रश्न 8. वह राधा का भाई है । इस वाक्य में कारक का भेद बताइए -

(क) कारण कारक (ख) संबंध कारक

(ग) कर्म कारक (घ) अपादान कारक

प्रश्न 9. करण कारक का उदाहरण है -

(क) बस से घर चले जाना ।

(ख) बस में बैठ जाओ ।

(ग) बस को धक्का दो ।

(घ) बस चल दी ।

प्रश्न 10. परिश्रमी व्यक्ति सफलता पाते हैं । । इस वाक्य में विशेषण का भेद बताइए ।

(क) परिमाण वाचक विशेषण

(ख) संख्यावाचक विशेषण

(ग) गुणवाचक विशेषण

(घ) संकेतवाचक विशेषण

मूल्यपरक प्रश्न

उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए ।

प्रश्न 11. वह तेज़ी से तैरने लगा । । इस वाक्य में _____ है ।

(क) अकर्मक क्रिया

(ख) सकर्मक क्रिया

(ग) प्रेरणार्थक क्रिया

(घ) सरल क्रिया

प्रश्न 12. ट्रेन सात बजे चलेगी । यह वाक्य _____ का है ।

(क) भूतकाल

(ख) वर्तमान काल

(ग) भविष्यत् काल

(घ) सामान्य भूतकाल

प्रश्न 13. देखो रमा ज़्यादा बोलती है । इस वाक्य में _____ है ।

(क) कालवाचक क्रिया -विशेषण

(ख) स्थानवाचक क्रिया -विशेषण

(ग) रीतिवाचक क्रिया -विशेषण

(घ) परिमाणवाचक क्रिया -विशेषण

प्रश्न 14. जो किताब आपने मुझे दी थी , मैंने पढ़ ली है । रचना की दृष्टि से यह वाक्य _____ है ।

(क) सरल वाक्य

(ख) मिश्र वाक्य

(ग) संयुक्त वाक्य

(घ) आजार्थक वाक्य

प्रश्न 15. _____ प्रेरणार्थक क्रिया है ।

(क) धोना

(ख) धुलना

(ग) धुलवाना

(घ) धोए

उच्च स्तरीय प्रश्न

प्रश्न 16 .निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कीजिए ।

मुंबई दुनिया के प्रसिद्ध शहरों में गिना जाता है । भारत के महानगरों में इसका दूसरा स्थान है । यहाँ मुंबा देवी का प्राचीन मंदिर है । इसी कारण इसे मुंबई कहा जाता है । यह अरब सागर के तट पर बसा है । यहाँ के समुद्र तट को देखने अनेक सैलानी आते हैं । मुंबई में मुख्य रूप से मराठी बोली जाती है और हिंदी भी बोली और समझी जाती है । मुंबई में फिल्में खूब बनती हैं । इसलिए इसे फिल्म नगरी भी कहते हैं ।

(क) मुंबई का यह नाम क्यों पड़ा ?

(i) समुद्र तट के कारण

(ii) मुंबा देवी के प्राचीन मंदिर के कारण

- (ii) प्रसिद्ध शहर के कारण (iv) महानगर के कारण
- (ख) मुंबई किस समुद्र तट पर बसा है ?
- (i) हिन्द महासागर के (ii) प्रशांत महासागर के
- (iii) अरब सागर के (iv) इनमे से कोई नहीं
- (ग) मुंबई में कौन - कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं ?
- (i) हिंदी (ii) हिंदी और मराठी
- (iii) मराठी (iv) बिहारी
- (घ) मुंबई को फ़िल्म नगरी क्यों कहते हैं ?
- (i) फिल्में दिखाई जाती हैं। (ii) नाटक दिखाए जाते हैं।
- (iii) शूटिंग होती है। (iv) फिल्में बनती हैं
- (ङ) इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए।
- (i) मुंबा देवी (ii) फ़िल्म नगरी
- (iii) समुद्र तट (iv) महानगर मुंबई